



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1902]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6,1938

No. 1902]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/SRAVANA 6, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2563(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से 67000-79000/- रुपए वेतनमान में नियुक्त करती है :-

क्रम सं.	नाम	पद	कार्य ग्रहण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बी.एस.वी. प्रकाश कुमार	न्यायिक सदस्य	01.06.2016
2.	श्री राजेश्वरा राव विठ्ठल्ला	न्यायिक सदस्य	02.06.2016
3.	सुश्री ईना मल्होत्रा	न्यायिक सदस्य	02.06.2016
4.	सुश्री दीपा कृष्णन	तकनीकी सदस्य	02.06.2016
5.	डा. अशोक कुमार मिश्रा	तकनीकी सदस्य	02.06.2016
6.	श्री विजय प्रताप सिंह	न्यायिक सदस्य	02.06.2016
7.	श्री डी.एम.गौतम	तकनीकी सदस्य	02.06.2016

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	चौ. मोहम्मद शरीफ तारिक	न्यायिक सदस्य	02.06.2016
9.	श्री वेंकटरामनी भास्कर	तकनीकी सदस्य	03.06.2016
10.	न्यायाधीश आर.पी. नागरथ	न्यायिक सदस्य	03.06.2016
11.	श्री एस. विजयराघवन	तकनीकी सदस्य	06.06.2016
12.	श्री राताकौंडा मुरली	न्यायिक सदस्य	06.06.2016
13.	सुश्री मनोरमा कुमारी	न्यायिक सदस्य	06.06.2016
14.	श्री वी. नल्लासेनापति	तकनीकी सदस्य	08.06.2016
15.	श्री वी. सीता रामा अवधानी	न्यायिक सदस्य	09.06.2016
16.	श्री के. अनंथा पदमनाभा स्वामी	न्यायिक सदस्य	09.06.2016
17.	श्री बिक्की रविन्द्र बाबु	न्यायिक सदस्य	09.06.2016
18.	श्री आर. वद्वाराजन	न्यायिक सदस्य	10.06.2016
19.	श्री मुकुल कुमार श्रावत	न्यायिक सदस्य	20.06.2016
20.	श्री रवि कुमार दुरईसामी	तकनीकी सदस्य	26.06.2016
21.	न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) पी.के. सैकिया	न्यायिक सदस्य	27.06.2016
22.	श्री शांतनु कुमार मोहपात्रा	तकनीकी सदस्य	28.06.2016
23.	श्री ऐच. पी. चतुर्वेदी	न्यायिक सदस्य	19.07.2016

[फा.सं. ए-12023/03/2013-एडी.IV]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, 28th July, 2016

S.O. 2563(E).—In exercise of the powers conferred by section 408 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby appoints following persons as Judicial and Technical Members in the National Company Law Tribunal in the pay scale of Rs. 67000-79000/- with effect from the dates mentioned against each for a period of five years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier:-

S. No.	Name	Post	Date of Joining
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Bethala Shantha Vijaya Prakash Kumar	Judicial Member	01.06.2016
2.	Shri Rajeswara Rao Vittalalla	Judicial Member	02.06.2016

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Ms. Ina Malhotra	Judicial Member	02.06.2016
4.	Ms. Deepa Krishan	Technical Member	02.06.2016
5.	Dr. Ashok Kumar Mishra	Technical Member	02.06.2016
6.	Shri Vijai Pratap Singh	Judicial Member	02.06.2016
7.	Shri D. M. Gautam	Technical Member	02.06.2016
8.	Ch. Mohd Sharief Tariq	Judicial Member	02.06.2016
9.	Shri Venkataramany Bhaskar	Technical Member	03.06.2016
10.	Justice R. P. Nagrath	Judicial Member	03.06.2016
11.	Shri S. Vijayaraghavan	Technical Member	06.06.2016
12.	Shri Ratakonda Murali	Judicial Member	06.06.2016
13.	Ms. Manorama Kumari	Judicial Member	06.06.2016
14.	Shri V. Nallasenapathy	Technical Member	08.06.2016
15.	Shri V. Seetha Rama Avadhani	Judicial Member	09.06.2016
16.	Shri K. Anantha Padmanabha Swamy	Judicial Member	09.06.2016
17.	Shri Bikki Raveendra Babu	Judicial Member	09.06.2016
18.	Shri R. Varadharajan	Judicial Member	10.06.2016
19.	Shri Mukul Kumar Shrawat	Judicial Member	20.06.2016
20.	Shri Ravi Kumar Duraisamy	Technical Member	26.06.2016
21.	Justice (Retd.) P. K. Saikia	Judicial Member	27.06.2016
22.	Shri Santanu Kumar Mohapatra	Technical Member	28.06.2016
23.	Shri H. P. Chaturvedi	Judicial Member	19.07.2016

[F. No. A-12023/03/2013-Ad.IV]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.